

SET – 4

Series : GBM/C

Code No. 11

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- Please check that this question paper contains 4 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 18 questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

মণিপুরী  
MANIPURI

সময় :: ৩ ঘণ্টা

Time allowed : 3 Hours

মোট নম্বৰ : 100

Maximum Marks : 100

1. ক্ষেত্ৰ জালিৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নকৰ্ত্তাৰ প্ৰশ্ন? 2 + 3 = 5  
কল্যাণ হুণ্ডাৰ প্ৰশ্ন জালি? জন্ম জালিৰ সৈতে?
2. কল্যাণ কল্যাণৰ সৈতে জন্ম জালিৰ সৈতে? 5
3. ক্ষেত্ৰ জালিৰ সৈতে জালিৰ সৈতে জালিৰ সৈতে জালিৰ সৈতে? 1 × 5 = 5  
(ক) ক্ষেত্ৰ জালিৰ সৈতে জালিৰ সৈতে  
(খ) ক্ষেত্ৰ জালিৰ সৈতে জালিৰ সৈতে  
(গ) ক্ষেত্ৰ জালিৰ সৈতে জালিৰ সৈতে  
(ঘ) ক্ষেত্ৰ জালিৰ সৈতে জালিৰ সৈতে  
(ঙ) ক্ষেত্ৰ জালিৰ সৈতে জালিৰ সৈতে

11

1

[ P.T.O. ]





8. සැබෑ ජාතිකවාදයේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව ප්‍රධාන අර්ථ දැක්වීම් ලියා දෙන්න:- 3 + 3 = 6

(ක) සිංහල ජාතිකවාදය, සහ අන්තර්ගතය

(ඌ) සිංහල ජාතිකවාදයේ අර්ථය

9. දේශපාලනික අර්ථය සහ අර්ථ දැක්වීම් ලියා දෙන්න:- 6

(ක) සිංහල, සිංහලයා සේවා ප්‍රධානියා සිටින, ආදිය අර්ථ දැක්වීම සහ අර්ථ දැක්වීම් ලියා දෙන්න

(පැහැදිලිව)

(ඌ) "උදාහරණයක් ලෙස, සිංහලයා සිටින. සිංහලයා සිටින, සිංහලයා සිටින, සිංහලයා සිටින"

10. ජාතිකවාදයේ අර්ථය පිළිබඳව ප්‍රධාන අර්ථ දැක්වීම් ලියා දෙන්න:- 6

11. "සිංහල ජාතිකවාදයේ අර්ථය පිළිබඳව ප්‍රධාන අර්ථ දැක්වීම් ලියා දෙන්න:-" 6

12. පහත දැක්වූ ප්‍රකාශනවලට පිටුපසට පිළිතුරු ලියා දෙන්න:- 4 × 2 = 8

(ක) 'සිංහල' යනු 'සිංහල' යන්නෙන් කෙසේ වන්න?

(ඌ) 'සිංහල' යනු 'සිංහල' යන්නෙන් කෙසේ වන්න?

(ඊ) පහත දැක්වූ ප්‍රකාශනයේ අර්ථය පිළිබඳව ප්‍රධාන අර්ථ දැක්වීම් ලියා දෙන්න:- 3 + 1 = 4

13. සැබෑ ජාතිකවාදයේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව ප්‍රධාන අර්ථ දැක්වීම් ලියා දෙන්න:- 1 × 4 = 4

(ක) 'සිංහල' යනු 'සිංහල' යන්නෙන් කෙසේ වන්න?

(ඌ) සිංහලයා සිටින, සිංහලයා සිටින, සිංහලයා සිටින

(ඊ) 'සිංහල' යනු 'සිංහල' යන්නෙන් කෙසේ වන්න?

(උ) සිංහලයා සිටින, සිංහලයා සිටින, සිංහලයා සිටින



14. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ:-

6

(କ) ମୈତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯିବା  
ଘରକୁ ଯିବା ପରେ  
ଘରକୁ ଯିବା ପରେ

(ଖ)

(ଗ) ଘରକୁ ଯିବା ପରେ  
ଘରକୁ ଯିବା ପରେ  
ଘରକୁ ଯିବା ପରେ  
ଘରକୁ ଯିବା ପରେ

15. 'ଘରକୁ ଯିବା' ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ:-

6

16. 'ଘରକୁ ଯିବା' ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ:-

6

17. 'ଘରକୁ ଯିବା' ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ:-  $1 + 1 = 2$

18. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ:-

$1 \times 5 = 5$

- (କ) 'ଘରକୁ ଯିବା' ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ:-
- (ଖ) 'ଘରକୁ ଯିବା' ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ:-
- (ଗ) 'ଘରକୁ ଯିବା' ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ:-
- (ଘ) 'ଘରକୁ ଯିବା' ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ:-
- (ଙ) 'ଘରକୁ ଯିବା' ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ:-

